

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 60]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी, 19, 1972/साघ 30, 1883

No. 60]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 19, 1972/MAGHA 30, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 18th February 1972

G.S.R. 83(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Water Engineering (Class I) Service Rules, 1965, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Water Engineering (Class I) Service (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Water Engineering (Class I) Service Rules, 1965,—

(1) in rule 21,—

(a) in the proviso to sub-rule (2), paragraph beginning with the words “certificates of eligibility will not”, and items (i), (ii), and (iii) thereunder shall be omitted;

(b) for Note (ii) of sub-rule (3), the following Note shall be substituted, namely:—

“Note (ii).—The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in clause (b) shall be cancelled if, after submitting his application, he resigns from service or his services are terminated by his department or office, either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the Service or post after submitting his application for the examination under this part”;

(c) for clause (A) of the proviso to clause (g) of sub-rule (4), the following clause shall be substituted, namely:—

“(A) The candidate who has passed such examination should have appeared and passed in the following additional papers according to post 1959 scheme of Graduate Membership Examination, namely:—

(i) Principles of Radio and Electronics I (Section ‘A’);

(ii) Mathematics II (Section ‘B’).”;

(2) for the proviso to clause (b) of rule 23B, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Service Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Services or posts irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.”

[No. 33/72—F. 39/4/72-Adm. I.]

सिच.ई और विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1972

जी० एस० आर० 83(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एन० द्वारा केन्द्रीय जल इंजीनियरी (श्रेणी I) सेवा नियमावली, 1965 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; नामशः :—

1. (1) ये नियम केन्द्रीय जल इंजीनियरी (श्रेणी I) सेवा (संशोधन) नियमावली, 1972 के नाम से कहे जाएं।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू हो जाएंगे।

2. केन्द्रीय जल इंजीनियरी (श्रेणी I) सेवा नियमावली, 1965 में—

(1) नियम 21 में,—

(क) उपनियम (2) के परन्तुक में “पात्रता के प्रमाण पत्र . . . नहीं . . . ” शब्दों से प्रारम्भ होने वाला पैरा और उसके नीचे की संदे (i), (ii) और () छोड़ दी जाए;

(ख) उपनियम (3) के नोट () की जगह निम्नलिखित नोट रखा जाये, नामशः “नोट ii :—किसी भी ऐसे व्यक्ति की उम्मीदवारी जिसे परीक्षा में प्रवेश की मजूरी खण्ड (ख) में उल्लिखित आयु-छूट के अंतर्गत दी जाती है, उस हालत में रद्द कर दी जाएगी यदि वह अपना आवेदन-पत्र देने के बाद सेवा से त्याग पत्र दे दे या उसके परीक्षा देने के पूर्व या उसके बाद विभाग या कार्यालय द्वारा ही उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाए। बहरहाल, अगर इस भाग के अंतर्गत परीक्षा के लिए अपना आवेदन-पत्र देने के बाद सेवा या पद में उसकी छूटनी हो जाए, तो वह पात्र बना रहेगा।”,

(ग) उन्मियम (4) केखण्ड (क) के परन्तुक खण्ड के (अ) की जगह निम्नलिखित खण्ड रखा जाए, नामशः—

“(अ) जो उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में उत्तीर्ण हो, उसे ग्रेजुएट मेम्बरशिप परीक्षा की 1959 के बाद की स्कीम के अनुसार निम्नलिखित अतिरिक्त प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित और उत्तीर्ण होना चाहिए, नामशः—

(i) रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स के सिद्धान्त—प्रथम (खंड ‘अ’)

() गणित—द्वितीय (खंड ‘अ’)।”;

(2) नियम 23 आ केखंड (ख) के परन्तुक की जगह, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाये, नामशः—

“बशर्ते कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिए आरक्षित जितनी रिक्तिया सामान्य मानदंड के आधार पर न भरी जा सकें, सेवा आयोग आरक्षित कोटे को पूरा करने के लिए, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम-जातियों के उनके उम्मीदवारों की सिफारिश; शिथिलीकृत मानदंड से, इस शर्त के साथ करे कि परीक्षा में योग्यता-क्रम में उनके स्थान को ध्यान में लाये बिना ये उम्मीदवार सेवाओं/या पद पर नियुक्ति के योग्य हों”।

[सं० 33/72-एफ० 39/4/72 प्रशा० एफ०]

G.S.R. 84(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Power Engineering (Class I) Service Rules, 1965, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Power Engineering (Class I) Service (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Power Engineering (Class I) Service Rules, 1965:—

(1) in rule 21,—

(a) in the proviso to sub-rule (2), paragraph beginning with the words “certificates of eligibility will not” and items (i), (ii) and (iii) thereunder shall be omitted;

(b) for Note (ii) of sub-rule (3), the following Note shall be substituted, namely:—

“NOTE (ii).—The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in clause (b) shall be cancelled if, after submitting his application, he resigns from service or his services are terminated by his department or office, either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the Service or post after submitting his application for the examination under this part.”;

(c) for clause (A) of the proviso to clause (g) of sub-rule (4), the following clause shall be substituted, namely:—

“(A) The candidate who has passed such examination should have appeared and passed in the following additional papers according to post 1959 scheme of Graduate Membership Examination, namely:—

(i) Principles of Radio and Electronics I (Section ‘A’);

(ii) Mathematics II (Section ‘B’).”;

(2) for the proviso to clause (b) of rule 23B, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Service Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Services or posts irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.”

[No. 34/72—F. 39/4/72-Adm. I.]

G. K. DOGRA, Dy. Secy.

जी० एस० आर० ८४ (अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा केन्द्रीय विद्युत् इंजीनियरी (श्रेणी I) सेवा नियमावली, 1965 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं ; नामशः—

1. (1) ये नियम केन्द्रीय विद्युत् इंजीनियरी (श्रेणी I) सेवा (संशोधन) नियमावली, 1972 के नाम से कहे जाएं :

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू हो जाएंगे ।

2. केन्द्रीय विद्युत् इंजीनियरी (श्रेणी I) सेवा नियमावली, 1965 में ; —

(i) नियम 21 में,—

(क) उपनियम (2) के परन्तुक में “पात्रता के प्रमाण पत्र नहीं . . .” शब्दों से प्रारम्भ होने वाला पैरा और उसके नीचे की मर्दे (i), (ii) और (iii) छोड़ दी जाएं ;

(ख) उपनियम (3) के नोट (ii) की जगह निम्नलिखित नोट रखा जाये, नामशः :
“नोट ii :— किसी भी ऐसे व्यक्ति की उम्मीदवारी जिसे परीक्षा में प्रवेश की मजूरी खण्ड (ख) में उल्लिखित आयु-छूट के अन्तर्गत दी जाती है; उस हालत में रद्द कर दी जाएगी यदि वह अपना आवेदन-पत्र देने के बाद सेवा से त्यागपत्र दे दे या उसके परीक्षा देने से पूर्व या उसके बाद विभाग या कार्यालय द्वारा ही उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं। बहरहाल अगर इस भाग के अन्तर्गत परीक्षा के लिए अपना आवेदन-पत्र देने के बाद सेवा या पद में उसकी छंदनी हो जाए तो वह पात्र बना रहेगा।” ;

(ग) उपनियम (4) के खण्ड (छ) के परन्तुक के खण्ड (अ) की जगह निम्नलिखित खण्ड रखा जाए, नामशः—

“(अ) जो उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में उत्तीर्ण हो, उसे ग्रैजुएट मेम्बरशिप परीक्षा की 1959 के बाद की स्कीम के अनुसार निम्नलिखित अतिरिक्त प्रश्न पत्रों में सम्मिलित और उत्तीर्ण होना चाहिए ; नामशः—

(i) रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स के सिद्धान्त—प्रथम (खंड ‘आ’)

(ii) गणित द्वितीय (खंड ‘आ’) ;

- (2) नियम 23 आ के खण्ड (ख) के परन्तुक की जगह निम्नलिखित परन्तुक रखा जाये, सामश:-

“बशर्त कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिए आरक्षित जितनी रिक्तियाँ सामान्य मानदण्ड के आधार पर न भरी जा सके, सेवा आयोग आरक्षित कोटे को पूरा करने के लिए, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिमजातियों के उतने उम्मीदवारों की सिफारिशों शिथिलीकृत मानवंड से, इस शर्त के साथ करे कि परीक्षा में योग्यता-क्रम में उनके स्थान को ध्यान में लाये बिना ये उम्मीदवार सेवाओं/या पदों पर नियुक्ति के योग्य हों।”

[सं० 34/72-एफ० 39/4/72-प्रशा० एक]

[गोपाल कृष्ण डोगरा, उप सचिव।

